

17वीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान प्रश्नों के संबंध में मुख्य बिन्दु

सत्रहवीं लोक सभा का छठा सत्र 19 जुलाई, 2021 को आरंभ हुआ तथा जिसकी समाप्ति 13 अगस्त, 2021 को होनी थी। इस सत्र के दौरान प्रश्न काल के लिए कुल 19 बैठकें निर्धारित की गई थीं। तथापि, सभा 11 अगस्त, 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई थी। यद्यपि 11 अगस्त, 2021 को बैठक हुई थी लेकिन उस दिन कोई कार्य नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, प्रश्न काल के लिए बैठकों की संख्या कम होकर 16 रह गई थी। 17वीं लोक सभा के छठे सत्र से संबंधित प्रश्न काल की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

- 1. सूचनाएं, जो प्राप्त हुईं और जिनकी जांच की गई-** तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं 2 जुलाई, 2021 से प्राप्त की गई थीं। कुल 22813 सूचनाओं (तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न) की जांच की गई थी। एक दिन में 'बैलट' के लिए सम्मिलित प्रश्नों की सूचनाओं की अधिकतम संख्या 4 अगस्त, 2021 को 1306 थी।
- 2. ई-सूचनाएं -** छठे सत्र के दौरान प्राप्त 22671 सूचनाओं (विभाजित प्रश्नों को छोड़कर) में से 21198 (93.5 प्रतिशत) सूचनाएं ई-सूचनाएं थीं। पिछले पांच सत्रों में, ई-सूचनाओं का प्रतिशत क्रमशः 43.77, 59.97, 64.29, 91.28 और 90.36 रहा लेकिन इस सत्र में इसका प्रतिशत इनसे अधिक रहा। इस प्रकार ई-संसद तथा कागजरहित सचिवालय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो रही हैं।
- 3. सदस्यों की भागीदारी -** जिन सदस्यों के नाम से सत्र के दौरान तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न गृहीत किए गए थे, उनकी संख्या 379 थी। 4 अगस्त, 2021 को होने वाली बैठक के लिए किए गए बैलट के लिए अधिकतम 316 सदस्यों के नाम सम्मिलित किए गए थे।
- 4. तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में प्रश्नों की कुल संख्या तथा मंत्रालयों द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों की अधिकतम संख्या-** तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 320 प्रश्नों तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में 3680 प्रश्नों को शामिल किया गया था। प्रश्नों की सूची में शामिल किए गए सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 जुलाई, 2021 को हुई बैठक के लिए अधिकतम थी, जो कि 304 थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या अर्थात् 283

प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसके पश्चात कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 264 प्रश्नों का उत्तर दिया।

5. मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों और पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की कुल संख्या-सत्र के दौरान 4.13 प्रश्न प्रति बैठक के औसत से कुल 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। किसी एक दिन में मौखिक उत्तर दिए गए प्रश्नों की अधिकतम संख्या 10 रही, जो 8 जुलाई, 2021 को थी। सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा कुल 107 अनुपूरक प्रश्न पूछे गए, जिनका औसत प्रतिदिन 1.62 तारांकित प्रश्न रहा। पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें सत्रों के दौरान तदनुरूप आंकड़ा क्रमशः 3.03, 2.77, 3.28 तथा 3.1 था। इसके अतिरिक्त, कुल 65 सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछे जिनका औसत प्रति प्रश्न 1.65 सदस्य रहा जो इस लोक सभा में सर्वाधिक है। इस संदर्भ में पहले, दूसरे, तीसरे तथा पांचवें सत्र के लिए औसत क्रमशः 1.16, 1.21, 1.42 तथा 1.37 सदस्य था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत चौथे सत्र के दौरान प्रश्न काल नहीं हुआ था।